



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 606]  
No. 606]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 27, 2012/अग्रहायण 6, 1934

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 27, 2012/AGRAHAYANA 6, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2012

**सा.का.नि. 852(अ)**.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण (साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ') भर्ती नियम, 1962 जहां तक उनका संबंध कीट व्यवस्थापक, सहायक चर्मसाधक और चर्म प्रसाधन परिचर के पदों से है, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण (प्रयोगशाला परिचर समूह 'घ') भर्ती नियम, 1990 और भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण ('मत्स्यालय परिचर समूह 'घ') भर्ती नियम, 1990 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण में फौल्ड परिचर (बहुकृतों सहित) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, फौल्ड परिचर (बहुकृतों सहित), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लोखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड	चयन अथवा अचयन पद वेतनमान	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहंताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
फील्ड परिचर (इकूल्टी सहित)	85* (2012)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसूचितीय	वेतन बैंड-1 (5200- 20200रु.) + ग्रेड वेतन 1800रु.	लागू नहीं होता	27 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अस्थायियों की क्षा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनतातियों के अस्थायियों की दशा में 45 वर्ष तक शिखिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए नियमिक तारीख कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापनानुसार होगी।	आवश्यक : मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय सहित मेंट्रिकलेशन - या रामतुल्य। वांछिय : हिन्दी पढ़ने और लिखने की योग्यता या कीटों का बाज़ा बनाने या उनके व्यवस्थापन का अनुभव या क्षेत्र में कीटों के संग्रहण और परिष्कण की जानकारी या चर्म प्रसाधन की तकनीक की जानकारी या किसी प्राणी विज्ञान प्रयोगशाला - या संस्थान में चर्म प्रसाधन कार्य का पूर्व

अनुभव अधिकारियों कर्मचारियों के साथ फील्ड छुट्टी करने की चोरायता या मछली पालन का ज्ञान और मत्स्य प्रदूशों और मत्स्य खाद्य के संग्रहण का अनुभव ।	या अधिकारियों कर्मचारियों के साथ फील्ड छुट्टी करने की चोरायता या मछली पालन का ज्ञान और मत्स्य प्रदूशों और मत्स्य खाद्य के संग्रहण का अनुभव ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होनी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने बाली शिक्षियों की प्रतिशतता	(10)	
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहंतारं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होनी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होनी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने बाली शिक्षियों की प्रतिशतता	(10)	
(8)	(9)	(10)		
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती ।	टिप्पण : पदधारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर या लंबी रुग्णता या अध्यनार्थ छुट्टी के कारण एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए हई रिक्ति, केन्द्रीय सरकार में नियमित अधार पर सदृश पद धारण तरने वाले और रत्नम् 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अहंतारं रखने वाले पदधारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती जा सकेगी ।	

<p><b>प्रोन्नति</b> या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।</p> <p>(11)</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p> <p>(12)</p> <p>विभागीय प्रोन्नति समिति (पुस्ति करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निदेशक, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण</li> <li>2. कार्यालय प्रमुख, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण,</li> <li>3. कार्यालय प्रमुख, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण,</li> </ol> <p>(13)</p>
--	--

[फा. सं. 02-05/2012-सीएसजेड]

बी.एम.एस. गठीर, सयुक्त सचिव (संरक्षण और सर्वेक्षण)

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th November, 2012

**G.S.R. 852(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Central Service Group 'D') Recruitment Rules, 1962, in so far as they relate to the posts of Insect Setter, Assistant Taxidermist and Taxidermy Attendant, the Zoological Survey of India (Laboratory Attendant-Group 'D') Recruitment Rules, 1990 and Zoological Survey of India (Aquarium Attendant-Group 'D') Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Field Attendant (with Multitasking) in the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, Field Attendant (with Multitasking), Group 'C' Post Recruitment Rules, 2012.  
  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. — The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. — The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. Disqualification. — No person, —
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

4427 9/12-2

**SCHEDULE**

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or Pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
1	2	3	4	5
Field Attendant (with Multitasking).	85* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1; Rs 5200-20200 plus grade pay of Rs.1800.	Not applicable.
Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ deputation/ and percentage of vacancies to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
Not exceeding 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government	Essential: Matriculation or equivalent pass with science subjects from a recognised Board. Desirable: Ability to read and write in Hindi Or Experience of pinning and setting of Insects Or Knowledge of collection and preservation of insects in the field Or	Not applicable.	Two years.	Direct recruitment.

**Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more, may be filled on deputation basis from officers of Central

from time to time).	Knowledge in the technique of Taxidermy Or Previous experience of Taxidermy work in a Zoological Laboratory or Institute Or Ability to undertake field duties with officers and staff Or Knowledge of fish keeping and experience in collection of fish exhibits and fish food.	Government holding analogous posts on regular basis and possessing qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.
<b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.		

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
11	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- (i) Director, Zoological Survey of India—Chairman; (ii) Head of Office, Botanical Survey of India – Member; (iii) Head of Office, Zoological Survey of India – Member.	12 13
Not applicable.	Departmental Promotion Committee (for Not applicable.	

[F. No. 02-05/2012-CSZ]  
B.M.S. RATHORE, Jt. Secy. (Conservation and Survey)